



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 250]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 2, 2012/कार्तिक 11, 1934

No. 250]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 2, 2012/KARTIKA 11, 1934

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2012

सं. 37/1/(XII)/2012/टी.—राष्ट्रपति का दिनांक 01 नवम्बर, 2012 का निम्नलिखित आदेश सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (1) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्वारा लोक सभा को गुरुवार, 22 नवम्बर, 2012 को पूर्वाह्न 11.00 बजे नई दिल्ली में अधिवेशन के लिए आमंत्रित करता हूँ।

01 नवम्बर, 2012

प्रणब मुखर्जी,  
राष्ट्रपति।”

टी. के. विश्वनाथन, महासचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2012

No. 37/1/(XII)/2012/T.—The following Order by the President dated the 1st November, 2012, is published for general information :—

“In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Lok Sabha to meet at New Delhi on Thursday, the 22nd November, 2012 at 11.00 A.M.

November 01, 2012

PRANAB MUKHERJEE,  
PRESIDENT.”

T. K. VISWANATHAN, Secy.-General